

Series JMS/1

SET-1

रोल नं.
Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--

कोड नं.

Code No.

32/1/1

परीक्षार्थी कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Code on the title page of the answer-book.

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 10+1 मानचित्र हैं।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नम्बर को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 26 प्रश्न हैं।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।
- Please check that this question paper contains 10 printed pages + 1 map.
- Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains 26 questions.
- **Please write down the Serial Number of the question before attempting it.**
- 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

सामाजिक विज्ञान

SOCIAL SCIENCE

निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 80

Maximum marks : 80

सामान्य निर्देश:

- (i) इस प्रश्न-पत्र को चार खण्डों में विभाजित किया गया है; खण्ड क, खण्ड ख, खण्ड ग और खण्ड घ।
- (ii) इस प्रश्न-पत्र में कुल 26 प्रश्न हैं।
- (iii) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (iv) प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
- (v) प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 30 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए।
- (vi) प्रश्न संख्या 8 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 80 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए।
- (vii) प्रश्न संख्या 19 से 25 तक प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए।
- (viii) प्रश्न संख्या 26 मानचित्र प्रश्न 5 अंक का है। इसके दो भाग हैं 26(A) और 26(B)। 26(A) 2 अंक का है इतिहास से तथा 26 (B) 3 अंक का भूगोल से है। मानचित्र का प्रश्न पूर्ण होने पर उसे अपनी उत्तर-पुस्तिका के अंदर नत्थी करें।

General Instructions :

- (i) The question paper is divided into **four** sections. Section A, Section B, Section C and Section D.
- (ii) The question paper has **26** questions in all.
- (iii) All questions are **compulsory**.
- (iv) Marks are indicated against each question.
- (v) Questions from serial number **1** to **7** are very short answer type questions. Each question carries **1** mark. Answers to these should not exceed **30** words.

- (vi) Questions from serial number 8 to 18 are 3 marks questions. Answers of these questions should not exceed 80 words each.
- (vii) Questions from serial number 19 to 25 are 5 marks questions. Answers of these questions should not exceed 100 words each.
- (viii) Question number 26 is a map question of 5 marks with two parts – 26 A from History (2 marks) and 26 B from Geography (3 marks). After completion, attach the map inside your answer-book.

खण्ड-क**SECTION-A**

1. 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में आर्थिक क्षेत्र में 'उदारवाद' की व्याख्या कीजिए। 1
अथवा
मेकोंग डेल्टा क्षेत्र के आर्थिक विकास में फ्रांसीसियों के योगदान की व्याख्या कीजिए।
Interpret the concept of 'liberalisation' in the field of economic sphere during the nineteenth century in Europe.
OR
Interpret the contribution of French in the economic development of Mekong delta region.
2. जापान में हाथ से छपाई की तकनीक कैसे प्रारंभ हुई? 1
अथवा
क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद प्रक्रिया ने उपन्यास की लोकप्रियता को बढ़ाने में कैसे सहायता की?
How had hand printing technology introduced in Japan?
OR
How had translation process of novels into regional languages helped to spread their popularity?

3. पंजाब में अति सिंचाई भू-निम्नीकरण के लिए कैसे उत्तरदायी है? 1

अथवा

सीमेंट उद्योग भू-निम्नीकरण के लिए कैसे उत्तरदायी है?

How is over irrigation responsible for land degradation in Punjab?

OR

How is cement industry responsible for land degradation?

4. राजनीतिक रूप से सचेत नागरिकों द्वारा लोकतांत्रिक सुधार कैसे किए जा सकते हैं? 1

How can democratic reforms be carried out by political conscious citizens ?

5. भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए उनकी आय के संबंध में विकास का क्या लक्ष्य हो सकता है? 1

अथवा

पंजाब के समृद्ध किसान का विकास का लक्ष्य क्या हो सकता है?

What may be a goal of landless rural labourers regarding their income?

OR

What may be a goal of prosperous farmer of Punjab?

6. 'प्राथमिक' एवं 'द्वितीयक' क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 1

Distinguish between 'primary' and 'secondary' sectors.

7. बैंक अथवा उधारदाता ऋण के बदले सार्थक ऋणाधार की मांग क्यों करते हैं? 1

Why do banks or lenders demand collateral against loans?

खण्ड-ख

SECTION-B

8. नेपोलियन की संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में किस प्रकार लागू किया गया? उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। 3x1=3

अथवा



वियतनाम की आर्थिक प्रगति के लिए जिम्मेदार तीन बाधाओं की उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए।

How had Napoleonic code exported to the regions under French control ? Explain with examples.

OR

Explain with examples the three barriers that are responsible to economic growth in Vietnam.

9. चीनी राजतंत्र किस प्रकार लंबे समय तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक बना रहा? उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। 3x1=3

अथवा

यूरोप में उन्नीसवीं सदी के दौरान उपन्यास किस प्रकार लोगों के लिए सुलभता से उपलब्ध हो रहे थे? उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए।

How had the Imperial State in China been the major producer of printed material for a long time? Explain with examples.

OR

How had novels been easily available to the masses in Europe during nineteenth century? Explain with examples.

10. 'रबी शस्य ऋतु' की किन्हीं तीन प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 3x1=3

अथवा

'खरीफ शस्य ऋतु' की किन्हीं तीन प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

Describe any three main features of 'Rabi crop season.'

OR

Describe any three main features of 'Kharif crop season.'

11. "भारत में विशाल और बढ़ती जनसंख्या जल की दुर्लभता का परिणाम हो सकती है।" इस कथन का विश्लेषण कीजिए। 3x1=3

"Water scarcity may be an outcome of large and growing population in India." Analyse the statement.

12. "किसी लोकतांत्रिक देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देना एक सामान्य बात है और स्वस्थ भी हो सकती है।" तर्कों सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। 3

अथवा



“सामाजिक विभाजन राजनीति को प्रभावित करते हैं।” इस कथन की परख कीजिए।

“The assertion of social diversities in a democratic country is very normal and can be healthy.” Justify the statement with arguments.

OR

“Social divisions affect politics.” Examine the statement.

13. “भारत में आजादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, परन्तु अभी भी पुरुषों से काफी पीछे हैं।” इस कथन का विश्लेषण कीजिए। 3x1=3

“Women still lag much behind men in India despite some improvements since independence.” Analyse the statement.

14. भारत में राजनीतिक दलों को किस प्रकार क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिलती है? उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। 1½+1½=3

How are political parties recognized as regional and national parties in India? Explain with examples.

15. “पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते”। इस कथन को न्यायसंगत ठहराइए। 3

“Consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries.” Justify the statement.

16. भारत में ‘तृतीयक क्षेत्रक’ महत्वपूर्ण क्यों हो रहा है? किन्हीं तीन कारणों की व्याख्या कीजिए। 3

अथवा

किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) ज्ञात करने के लिए विविध वस्तुओं और सेवाओं की गणना हम कैसे करते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

Why is the ‘tertiary sector’ becoming important in India? Explain any three reasons.

OR

How do we count various goods and services for calculating Gross Domestic Product (G.D.P.) of a country? Explain with example.



17. आर्थिक विकास में ऋण के औपचारिक स्रोतों के महत्व का वर्णन कीजिए। 3x1=3

अथवा

अनौपचारिक ऋण के स्रोतों का कर्जदारों पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों का वर्णन कीजिए।
Describe the importance of formal sources of credit in the economic development.

OR

Describe the bad effects of informal sources of credit on borrowers.

18. उपभोक्ता अपने 'क्षतिपूर्ति निवारण' के अधिकार का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 3

How can consumers use their 'Right to Seek Redressal'? Explain with example.

खण्ड-ग

SECTION-C

19. 1930 में किसने दलितों को 'दमित वर्ग एसोसिएशन' में संगठित किया? उसकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 1+4=5

अथवा

'सविनय अवज्ञा आंदोलन' शब्द को परिभाषित कीजिए। 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' में अमीर और गरीब किसान समुदायों की सहभागिता का वर्णन कीजिए।

Who had organized the dalits into the 'Depressed Classes Association' in 1930? Describe his achievements.

OR

Define the term 'Civil Disobedience Movement.' Describe the participation of rich and poor peasant communities in the 'Civil Disobedience Movement.'

20. 'उन्नीसवीं शताब्दी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में भारतीय व्यापार ने एक अहम भूमिका अदा की थी।' इस कथन का विश्लेषण कीजिए। 5x1=5

अथवा

'बीसवीं शताब्दी के पहले दशक तक भारत में औद्योगीकरण का स्वरूप कई बदलावों की चपेट में आ चुका था।' इस कथन का विश्लेषण कीजिए।



अथवा

‘आधुनिक काल में औद्योगीकरण ने शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव डाला है।’
लंदन के विशेष संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए।

“Indian trade had played a crucial role in the late nineteenth century world economy.” Analyze the statement.

OR

“Series of changes affected the pattern of industrialization in India by the early twentieth century.” Analyze the statement.

OR

“Industrialization had changed the form of urbanization in the modern period.” Analyze the statement with special reference of London.

21. भारत में उद्योग पर्यावरण निम्नीकरण के लिए किस प्रकार जिम्मेदार हैं? उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। 5x1=5
- How are industries responsible for environmental degradation in India? Explain with examples.
22. “भारत में सड़क परिवहन, रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है।” कथन की उदाहरणों सहित पुष्टि कीजिए। 5x1=5
- “Roadways still have an edge over railways in India.” Support the statement with examples.
23. स्थिति, आकार और सांस्कृतिक पहलुओं के आधार पर बेल्जियम और श्रीलंका की स्थिति की तुलना कीजिए। 1+1+3=5

अथवा

साझेदारी का विचार कैसे सामने आया? सामान्य रूप से प्रचलित सत्ता की साझेदारी के विभिन्न स्वरूपों की व्याख्या कीजिए।

Compare the situation of Belgium and Sri Lanka considering their location, size and cultural aspects.

OR

How is the idea of power sharing emerged? Explain different forms that have common arrangements of power sharing.

24. जिम्मेवार और वैध शासन के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्व का वर्णन कीजिए। 5x1=5

Describe the importance of democratic government as an accountable and legitimate government.

25. बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उत्पादन के लिए कार्यालय और कारखानों को केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही क्यों स्थापित करती हैं? किन्हीं पाँच कारणों की व्याख्या कीजिए। 5x1=5

Why do multinational corporations (MNCs) set up their offices and factories in certain areas only? Explain any five reasons.

खण्ड-घ (मानचित्र प्रश्न)

SECTION-D (Map Question)

26. (A) दो लक्षण A और B दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा-मानचित्र में अंकित किए गए हैं। इन लक्षणों को निम्नलिखित जानकारी की सहायता से पहचानिए और उनके सही नाम मानचित्र पर खींची गई रेखाओं पर लिखिए- 1x2=2

- (a) वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ।
- (b) वह नगर जहाँ जलियाँवाला बाग की घटना हुई।

(B) इसी दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा-मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं तीन को उपयुक्त चिह्नों से दर्शाइए और उनके नाम लिखिए: 1x3=3

- (i) कलपक्कम - आण्विक ऊर्जा संयंत्र
- (ii) विजयनगर - लौह और इस्पात संयंत्र
- (iii) नोएडा - सॉफ्टवेयर टेकनोलॉजी पार्क
- (iv) पारादीप - समुद्री पत्तन
- (v) सरदार सरोवर - बाँध


नोट : निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 26 के स्थान पर किन्हीं पाँच का उत्तर दीजिए - 1x5=5

- (i) उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ जलियाँवाला बाग की घटना हुई।
- (ii) उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ गाँधीजी ने 'नमक कानून' तोड़ा।
- (iii) उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ 'चौरी-चौरा' घटना घटित हुई।
- (iv) उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ पारादीप समुद्री पत्तन स्थित है।

- (v) उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ विजयनगर लोहा और इस्पात संयंत्र स्थित है।
- (vi) उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है।
- (vii) सरदार सरोवर बाँध किस नदी पर बना है?
- (A) Two features **A** and **B** are marked on the given political outline map of India. Identify these features with the help of the following information and write their correct names on the lines marked near them.
- (a) The place where the Indian National Congress Session was held.
- (b) The city where Jallianwalla Bagh incident took place.
- (B) Locate and label any three of the following with appropriate symbols on the same given outline political map of India.
- (i) Kalpakkam – Nuclear Power Plant
- (ii) Vijayanagar – Iron and Steel Plant
- (iii) Noida – Software Technology Park
- (iv) Paradeep – Sea Port
- (v) Sardar Sarovar – Dam
- Note :** The following questions are for the **Visually Impaired Candidates** only, in lieu of Q. No. 26. Attempt any **five** questions.
- (i) Name the state where Jallianwalla Bagh incident took place.
- (ii) Name the state where Gandhiji violated the Salt Law.
- (iii) Name the state where ‘Chauri-Chaura’ incident took place.
- (iv) Name the state where Paradeep Sea Port is located.
- (v) Name the state where Vijayanagar Iron and Steel Plant is located.
- (vi) Name the state where Noida Software Technology Park is located.
- (vii) On which river is Sardar Sarovar Dam constructed?

Map for Q. No. 26

नक्शा प्रश्न संख्या 26 के लिए



Secondary School Examination (March- 2019)

Social Science (087)

Marking Scheme 32/1/1

QNO	EXPECTED ANSWERS/VALUE POINTS	PAGE NO.	MARK S
	<u>SECTION A</u>	H-9	
1.	<p>Concept of liberalization in the field of Economic Sphere: In the economic sphere, liberalization stood for freedom of market and the abolition of state imposed restrictions on the movement of goods and capital.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Contribution of French in the economic development of Mekong Delta Region: The building of canals and draining lands in the Mekong Delta region increased cultivation.</p>	H-32	1
2.	<p>Hand printing technology in Japan: Buddhist missionaries from China introduced hand printing technology in Japan.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Translation of novels into different regional languages helped to stimulate the growth of the novels in new areas.</p>	H-154 H-187	 1
3.	<p>Over irrigation responsible for land degradation in Punjab: Over irrigation is responsible for land degradation due to water logging leading to increase in salinity and alkalinity in the soil.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Cement industry responsible for land degradation: The mineral processing like grinding of limestone for cement industry is responsible for land degradation.</p>	G-7 G-7	 1
4.	<p>Democratic reforms by political conscious citizens:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Increased and improved quality of political participation. 2. Strengthen democratic practices. 3. Any other relevant point. <p>(Any one)</p>	DP-108	1
5.	<p>Goals of landless rural labourers: More days of work and better wages. (Any other relevant point)</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Goal of prosperous farmer of Punjab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Assured high family income. 2. Higher support prices for crops. 3. Able to settle their children abroad. 4. Any other relevant point. <p>(Any one)</p>	E-4 E-4	1
6.	<p>Distinguish Primary and Secondary Sector: Primary Sector.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Producing goods by exploiting natural resources. 2. Agriculture. <p>(Any one)</p>	E-20	1

	Secondary Sector : 1. Activities in which natural products are changed into other forms through manufacturing. 2. Industries. (Any one)		
7.	Banks or Lenders demand collateral against loans. Bank or lenders demand collateral against loans as it is used as a guarantee to a lender until the loan is repaid.	E-44	1
	<p style="text-align: center;"><u>SECTION – B</u></p> <p>Nepoleonic code exported to the regions under French Control:</p> 1. Simplified administrative divisions. 2. Abolished feudal system. 3. Freed peasants from serfdom and manorial dues. 4. In towns, guild restrictions were removed. 5. Transport and communication system improved. 6. Any other relevant point. 8. (Any three points to be explained with examples.)	H-6	3x1=3
	<p style="text-align: center;">OR</p> <p>Barriers responsible for economic growth in Vietnam:</p> 1. High population level. 2. Low agricultural productivity. 3. Extensive indebtedness among the peasants. 4. Any other relevant point. (Any three points to be explained with examples)	H-33	
9.	Imperial state in China as major producer of printed material: 1. Text books for examinations were printed in vast number. 2. The use of print was diversified and readership enhanced. 3. Import of new western technology and mechanical presses. 4. Any other relevant point. (Any three points to be explained with example)	H-154	
	<p style="text-align: center;">OR</p> <p>Novels easily available for the masses in Europe during nineteenth century:</p> 1. Introduction of circulating libraries. 2. Technological improvements in printing. 3. Mass production at low cost. 4. Innovation in marketing led to expanded sales. 5. Any other relevant point. (Any three points to be explained.)	H-178	3x1=3
10.	Main features of ‘Rabi Crop Season’: 1. Rabi crops are sown in Winter from October to December. 2. Harvested in Summer from April to June. 3. Important Rabi crops are Wheat, Barley, Peas, Gram and Mustard. 4. Availability of precipitation during winter months due to western temperate cyclones helps in the success of these crops.	G-36	


14.	<p>Regional and National Parties: The election commission gives regulation to the parties as regional and national party on following basis.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. REGIONAL PARTY: <ol style="list-style-type: none"> a. A party to secure at least six percent of the total votes in an election to the Legislative Assembly of a state and win at least two seats. b. Example : Trinmool Congress, Shiv Sena, DMK etc. 2. NATIONAL PARTY <ol style="list-style-type: none"> a. A party that secures at least six percent of the total votes in Lok Sabha election or Assembly in four states and wins at least four seats in Lok Sabha. b. For example: BJP, Indian National Congress, etc. 	DP-79	1 ½ + 1½ =3
15.	<p>Consequences of Environmental degradation do not respect national or State boundaries:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The increase in pollution of land water, air, noise and resulting in degradation of environment cannot be overlooked. 2. Pollution of river waters effects all as most of the rivers passes through different states. 3. Air pollution caused by the presence of high proportion of undesirable gases adversely affects human health and atmosphere as a whole. 4. Thermal pollution of river water effect the aquatic life irrespective of state and national boundaries. 5. Any other relevant point. (Any three points to be justified.) 	G-78	3x1=3
16.	<p>Importance of tertiary sector in India:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Development of services such as transport, trade and storage promote agriculture and industry. 2. Rise in income level. 3. Development of information and communication technology. 4. It provide larger number of employment. 5. Any other relevant point. (Any three points to be explained.) <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Gross Domestic Production:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GDP is undertaken by central government ministry. 2. The value of all final goods and services produced within a country during a particular year calculated. 3. The value of final goods and services in the three sectors are calculated by the different government departments. 4. Any other relevant point. (Any three points to be explained with example.) 	E-24,25	
17.	<p>Importance of formal sources of credit in the Economic Development:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formal sources provide cheap credit. 2. Credit at affordable rate is available through formal sources. 3. Terms and conditions of credit through formal sources are regulated by government. 	E-48,49	

21.	Industries responsible for environmental degradation in India: <ol style="list-style-type: none"> Pollution of land, water and air from industries caused environmental degradation. Burning of fossil fuels in big and small factories emit smoke in the air. Organic and inorganic industrial wastes and effluents are discharged into rivers. Dumping of wastes from industries renders the soil useless. Rain water carrying pollutants from wastes dumped by industries percolates and contaminated the ground water. Any other relevant point. (Any five points to be explained with examples)	G-76,78	5x1=5
22.	Roadways have edge over Railways in India: <ol style="list-style-type: none"> Roads are easy to build and maintain as compare to railways. Constructions cost of roads is much lower that of railway lines. Roads as compare to railways lines can negotiate higher gradients of slopes easily and as such can traverse mountains like Himalayas. Road transport is economical in transportation for people and goods for shorter distance. Roads provide door-to-door service, which railways cannot do. Road transport is also used as feeder to other modes of transport and provide a link between air, sea ports and railway stations. Any other relevant point. (Any five points to be explained with examples)	G-82	5x1=5
23.	Comparison of Belgium and Sri Lanka: <ol style="list-style-type: none"> Belgium is located in Europe whereas Sri Lanka is located in South Asia. Belgium has a population of little over one crore whereas Sri Lanka has population of two crores. In Belgium 59 percent people living in Flemish region and speaking Dutch language, 40 percent people living in Wallonia region speaking French and remaining 1 percent Belgian people speaks German whereas in Sri Lanka 74 percent population are Sinhalese speakers and 18 percent are Tamil speakers. In Belgium, French-speaking community are relatively rich and powerful and in Sri Lanka, Sinhalese-speaking people are Buddhist and powerful. In Belgium, Dutch speaking people are in numeric majority whereas in Sri Lanka, Sinhalese speaking population are in majority. Any other relevant point. (Any five points to be explained) <p style="text-align: center;">OR</p> Idea of Power Sharing Emerged: <ol style="list-style-type: none"> The idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. Different forms having common arrangements of Power sharing: <ol style="list-style-type: none"> Power is shared among different organs of government such as the Legislature, Executive and Judiciary. 	DP-2	1+1+3=5
		DP-8,9	1+4=5

	2. Powers can be shared among governments at different levels i.e., at National and Provincial or regional levels. 3. Power shared among different social groups such as religious and linguistic groups. 4. Power sharing arrangements in the way political parties, pressure groups and movements control or influence those in power. 5. Any other relevant point. (Any five points to be explained)		
24.	Importance of Democratic Government: 1. It produces a government that is accountable to citizens. 2. It responds to the needs and expectations of citizens. 3. It ensures that decision making will be based on norms and procedures for transparency making it accountable. 4. It has great success in setting up regular and free elections. 5. Democracy's ability to generate its own support is the most positive feature. 6. Any other relevant point. (Any five points to be discussed)	DP-91	1x5=5
25.	Offices and factories of MNC's . 1. Availability of Raw material. 2. Availability of skilled and unskilled labor at low costs. 3. Availability of other factors of production is assured like electricity etc. 4. Smaller companies are available. 5. Where government policies are favorable to investors. 6. Any other relevant point. (Any five points to be explained)	ECO-57	1x5=5
26.	(A) See attached filled map. (B) See attached filled map. For visually impaired candidates only in lieu of Q.No. 26 1. Punjab 2. Gujarat 3. Uttar Pradesh (UP) 4. Odisha 5. Karnataka 6. Uttar Pradesh (UP) 7. Narmada		1x5=5

32/1/1 , 32/1/2 , 32/1/3

Map for Q. No. 26
नक्शा प्रश्न संख्या 26 के लिए



26(A) - 1 x 2 = 2
26(B) - ANY THREE
1 x 3 = 3

Ujjwal
Hathani